



आप जाने से पहले जानकारी करें

बोटिंग सेफ्टी कोड

हमारे समुद्रों, झीलों और नदियों में नौकायन पर जाने से पहले आप न्यूजीलैंड के बोटिंग सेफ्टी कोड को जान लें, चाहे आप जिस भी प्रकार की नाव का उपयोग कर रहे हों।

सुरक्षित रहने में **5** सरल नियम आपकी मदद करते हैं:

- 1** जीवन रक्षक पेटी (लाइफ जैकेट्स) उन्हें लें – उन्हें पहनें
नावें, विशेषकर वे जो 6 मीटर से कम लम्बी हैं, बहुत जल्दी डूब सकती हैं। लाइफ जैकेट पहनने से पानी में आपके जीवित रहने का समय बढ़ जाता है।
- 2** स्किपर (कप्तान) की जिम्मेदारी
बोर्ड पर सभी की सुरक्षा और नाव के सुरक्षित संचालन के लिए स्किपर (कप्तान) जिम्मेदार है। अपने पोत और अपने अनुभव की सीमाओं में रहें।
- 3** संचार
संचार के दो अलग-अलग वाटरप्रूफ साधन ले जाएं ताकि यदि आप परेषानी में हों तो हम आपकी मदद कर सकें।
- 4** समुद्री मौसम
न्यूजीलैंड का मौसम बेहद अप्रत्याशित हो सकता है। आप जाने से पहले स्थानीय समुद्री मौसम के पूर्वानुमान की जांच करें और मौसम और समुद्र दोनों की स्थिति में परिवर्तनों की उम्मीद करें।
- 5** षराब से दूर रहें
षराब पीकर आप सुरक्षित नौकायन नहीं कर सकते हैं। पानी में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। आपको सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है।

साथ ही उपलब्ध है:

आउटडोर सेफ्टी कोड

वॉटर सेफ्टी कोड



सुरक्षित नौकायन शिक्षा और अपनी नौकायन गतिविधि की तैयारी करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए www.adventuresmart.org.nz पर जाएं।